



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4543]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 4543]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

का.आ. 5762(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण संख्या NH965 के **कि.मी. 176 से कि.मी. 226** तक के भूखण्ड (पिंपरे (खुं)-दिवे) सेक्शन, के निर्माण (चोड़ा करने / बाइपासा सहीत चार /छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "04/10/2018 और 05/10/2018" को "पुण्य नगरी " और " इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965 के कि.मी. 176 से कि.मी.226 तक के भूखण्ड (पिंपरे (खुं)-दिवे) सेक्शन (नई कलेक्टर ऑफिस, पुणे) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पुरन्दर				
	गांव का नाम: बेलसर				
1	1944	निजी	एग्रीकल्चर	0.0025	मोहन बाबूराव गरुड , महादेव बाबूराव गरुड ()
2	1949	निजी	एग्रीकल्चर	0.0239	अहंमदभाई सरदारभाई , सरताज रफीक बागवान , हसीना कलंदर बागवान ,रियाज़ पापभाई बागवान , सायरवानू सलीम बागवान , आवेदा शफी बागवान , मुमताज हसन बागवान , इलाही बाबालाल बागवान , निज़ाम बाबालाल बागवान , हसन बाबालाल बागवान , मजूरभाई आब्बासभाई बागवान ,रोशन मोहम्मद शरीफ बागवान , अकबरभाई आब्बासभाई बागवान , रामजानभाई आब्बासभाई , मेहताब गानीभाई बागवान , अल्लाहबस सरदारभाई , इस्माइलभाई सरदारभाई , इब्राहीमभाई सरदारभाई , उसमानभाई सरदारभाई ,कासमभाई सरदारभाई , मकबूलभाई सरदारभाई , याकूबभाई सरदारभाई , मोहम्मदभाई हत्तीपभाई सरदारभाई ()
3	1950	निजी	एग्रीकल्चर	0.0174	नारायण रामचंद्र गरुड , नारायण रामचंद्र गरुड , विश्वास रामचंद्र गरुड , सुदाम रामचंद्र गरुड , रोहिदास रामचंद्र गरुड , विश्वास रामचंद्र गरुड , सुदाम रामचंद्र गरुड , रोहिदास रामचंद्र गरुड ()

4	1951	निजी	एग्रीकल्चर	0.0186	भरत दगडू खेंगरे , सरूबाई दगडू खेंगरे ()
5	1952	निजी	एग्रीकल्चर	0.0259	अजित हनुमंत खेंगरे , अभिजीत हनुमंत खेंगरे अपाक आई शैला , अश्विनी हनुमंत खेंगरे अपाक आई शैला , कमल विठ्ठल खेंगरे , कृष्णा व्यंकट खेंगरे , गजराबाई शंकर बढदे गिरजाबाई तानाजी शेंडकर , गोविन्द सीताराम खेंगरे , जनाबाई बाबासाहेब शेवाले , जानोबा रामचंद्र खेंगरे , दत्तात्रय जयसिंग खेंगरे , दिलीप रामचंद्र उर्फ रामा जगताप , नामदेव जयसिंग खेंगरे , परबै रामदास जाधव , पांडुरंग व्यंकट खेंगरे , फूलबाई मुगुट खेंगरे , बाबासाहेब तुकाराम खेंगरे , भरत दगडू खेंगरे , मधुकर गुलाब खेंगरे , महादेव मल्हारी खेंगरे , महादेव सीताराम खेंगरे , मानसिंग जयसिंग खेंगरे , मोहन सीताराम खेंगरे , रघुनाथ जयसिंग खेंगरे , रमेश तुकाराम खेंगरे , रहिबाई रामचंद्र उर्फ रामा जगताप , लक्ष्मण सीताराम खेंगरे , वत्सला कृष्णा बोराडे , वैजयंता दिलीप पिलाने , शिवजी तुकाराम खेंगरे , शिवजी रामचंद्र उर्फ रामा जगताप , शैला हनुमंत खेंगरे , शंकर तुकाराम खेंगरे , शंकर मुगुट खेंगरे , सयाजी सीताराम खेंगरे , सरूबाई दगडू खेंगरे , सविता संपत पोमन , सुजानकुमार जयसिंग खेंगरे , सुनीता सोपान खेंगरे , सोनूबाई दगडू खेंगरे , सोहम सोपान खेंगरे अपाक आई सुनीता , हरूबाई बबन नवले , बाबुराव श्रीपति खेंगरे ()
6	1972	निजी	एग्रीकल्चर	0.012	चंद्रकांत सीताराम रणनवरे ()
7	1973	निजी	एग्रीकल्चर	0.0047	परशुराम भीकोबा मगर , साधना संजय ठोंबरे , अर्पणा प्रकाश हरपले , पल्लवी राहुल टक्के , शिल्पा सचिन भिंताड़े , पूनम योगेश काळभोर ()
8	1976	निजी	एग्रीकल्चर	0.0175	विमल शिवराम बनकर , गणेश शिवराम बनकर अपाक आई विमल , गिरीश शिवराम बनकर अपाक आई विमल , प्रवीण धोंडिबा बनकर , प्रशांत बालासाहेब बनकर , पांडुरंग अंतु बनकर , सिमा रामदास रायकर

					()
9	1974	निजी	एग्रीकल्चर	0.0261	चंद्रकांत रघुनाथ बनकर, अमोल अशोक बनकर, निलेश अशोक बनकर, प्रकाश भगवंत बनकर, मंगल नामदेव लडकत, मंजुलाबाई भगवंत बनकर, मनिषा जयराज ससणे, विजया नामदेव टिळेकर, सरस्वती अशोक बनकर, शंकर रामभाऊ बनकर, ज्ञानेश्वर धर्मा बोरसे ()
10	1975	निजी	एग्रीकल्चर	0.0161	तारावती पांडुरंग राऊत, पांडुरंग अंतू बनकर, प्रविण धोंडिबा बनकर, प्रशांत बाळासाहेब बनकर, रोहित शंकर रायकर, सिमा रामदास रायकर ()
	गांव का नाम: जेऊर				
11	228	निजी	एग्रीकल्चर	0.0435	आप्पा अनंता धयागुडे , बापूराव नामदेव धयागुडे , बिदाबाई नागेश ठोंबरे अक्षय दादा धयागुडे , आकाश दादा धयागुडे अ.पा.क . रानीबाई , रानीबाई दादा धयागुडे ()
12	230	निजी	एग्रीकल्चर	0.056	मंगल आप्पासो धायगुडे , दत्तात्रय कृष्णा तांम्बे , ज्ञानेश्वर कृष्णा तांम्बे , लक्ष्मण संभाजी तांम्बे , भीकाभाई कृष्णा तांम्बे , विलास साधु तांम्बे , रानीबाई दादा धायगुडे , बायडाबाई नागेश ठोम्बरे , आकाश दादा धायगुडे अपाक आई रानीबाई , अक्षय दादा धायगुडे , बापूराव नामदेव धायगुडे ()
13	220	निजी	एग्रीकल्चर	0.76	लक्ष्मी मधुकर शिंदे , उषा गजानन शिंदे , विद्या सोमनाथ शिंदे , निराबाई केसु तांबे , रोहिदास पांडुरंग सरक , राधाबाई दत्तात्रय तांबे , ताराबाई पांडुरंग सरक , पुरुषोत्तम अनंत देशपांडे , अंजना आबाजी चोरमले , गेनबा शंकर सरक , जयप्रकाश शंकर सरक , सिंधु आन्ना धायगुडे , हीराबाई गोपाळ पांडरे , बाळुताई तुकाराम तांबे , नारायण कोंडिबा तांबे , आन्ना कोंडिबा तांबे , शामराव कोंडिबा तांबे , संजय कोंडिबा तांबे , भालचंद्र चिंतामन देशपांडे , नलिनी चिंतामन देशपांडे , भानुदास वामन सरक , लक्ष्मण आन्ना तांबे , कुमार संपत

					धायगुडे ()
14	232	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	महादेव शंकर तांबे , दत्तात्रय कृष्णा तांबे , ज्ञानेश्वर कृष्णा तांबे , भीकाभाई कृष्णा तांबे , मोहन पांडुरंग तांबे , ज्ञानेश्वरर पांडुरंग तांबे , सुनील पांडुरंग तांबे , मलन दिलीप शेळके , मंगल नामदेव धायगुडे , इंदूबाई पांडुरंग तांबे , कमला पांडुरंग तांबे , आप्पा चिंतामन तांबे , संजय चिंतामन तांबे , सदाशिव चिंतामन तांबे , यशोदाबाई चिंतामन तांबे ()
	गांव का नाम: कोलविहिरे				
15	156	निजी	एग्रीकल्चर	0.0157	लक्ष्मण नारायण वारागडे ()
16	2124	निजी	एग्रीकल्चर	0.37	अरुण मारुती भोर , दत्तात्रय निवृत्ती भोर , धोंडिबा शंकर भोर , रोहित रमेश भोर , सुनंदा रमेश भोर , सोनाली राहुल गायकवाड , मोनाली रमेश भोर , वसंत बापू भोर , वामन रावजी भोर , संजय निवृत्ती भोर , हनुमंत निवृत्ती भोर , साहेबराव कृष्ण भोर , भगवान कृष्णा भोर , दशरथ तात्याबा भोर , राजाराम जगन्नाथ भोर , अर्जुन तात्याबा भोर ()
	गांव का नाम: पिम्परी Kh.				
17	291	निजी	एग्रीकल्चर	0.0295	नामदेव मुगुटराव थोपटे मोहन नामदेव थोपटे , विजय नामदेव काकासो नामदेव थोपटे , प्रभावती हनुमंत शिर्के , शोभा प्रकाश कदम , इंदूबाई नामदेव थोपटे ()
	गांव का नाम: पिसुरति				
18	66	निजी	एग्रीकल्चर	0.0079	सुरेख एकनाथ हरपळे ()
19	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.0118	हीराबाई बबन जगताप , विठ्ठल लक्ष्मण भुजबळ , विशाल बबन भुजबळ , सुवर्णा राजेंद्र खतमलास , सुनीता नंदकुमार रासकर , अरुणा शंकर जगताप , वैशाली अनिल जगताप , आशा सागर ससाने , सुमन बबन भुजबळ ()

20	107	निजी	एग्रीकल्चर	0.0042	बापुराव कृष्णाजी भोसले , प्रभाकर कृष्णाजी भोसले , भाऊराव कृष्णाजी भोसले , शांताबाई भीकाजी रावखंडे , चंपाबाई दशरथ कांबळे , सुशिल वाल्मीक सोनानीस ()
21	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.0232	पांडुरंग विठोबा भोसले , हरिभाऊ विठोबा भोसले , देवदास धोंडीराम भोसले ()
22	126	निजी	एग्रीकल्चर	0.0002	रंगूबाई रघुनाथ हगवणे एकुम, गंगूबाई सांवळा खैर , बकुळाबाई दिनकर डोईफोडे , दमोदर रामचंद्र भोसले , शमराओ रामचंद्र भोसले , ज्ञानदेव रामचंद्र भोसले , गेनबा रामचंद्र भोसले , तुकाराम रामचंद्र भोसले , पुंडलिक रामचंद्र भोसले , निवृत्ति रामचंद्र भोसले , नवनाथ रामचंद्र भोसले , शांताबाई उत्तम डोईफोडे , सिंधु नामदेव भोसले , मधुकर नामदेव भोसले , विजय नामदेव भोसले , , सुवर्णा मंदा ऊर्फ लक्ष्मण जाधव , सुनीता महादेव आबनावे , मनीषा संदीप ढवळे ()
23	127	निजी	एग्रीकल्चर	0.0387	माणिक मल्हारी बरकडे , मानसिंग जयसिंग बरकडे , अनिल जयसिंग बरकडे , सुनील जयसिंग बरकडे , तान्हुबाई जयसिंग बरकडे , रावसाहेब बाबूराव बरकडे , रंजना रतन बरकडे , वनबाई बाबूराव बरकडे , शालन रतन बरकडे अपाक आई रंजना , सुभाष बाबूराव बरकडे , सोनबा रतन बरकडे अपाक आई रंजना , उत्तम बाबूराव बरकडे , झिंगाबाई खंडु धायगुडे , फूलबाई भाऊ शिंदे , भाऊसाहेब बाबूराव बरकडे , सुलाबाई बापू चोरमले ()
24	128	निजी	एग्रीकल्चर	0.0197	संपत रमा बरकडे . ()
25	129	निजी	एग्रीकल्चर	0.0313	दादा आप्पा बरकडे , दत्तात्रय मारुती बरकडे , बारकाबाई मारुती बरकडे , विट्टल मारुती बरकडे , दिलीप मारुती बरकडे , सुशिला सदाशिव धायगुडे , राधाबाई बाळू धायगुडे , शांताबाई शंकर चोरमले , पलाबाई आप्पा ठोम्बरे

					()
26	131	निजी	एग्रीकल्चर	0.0273	रणसिंग रघुनाथ पवार . ()
27	132	निजी	एग्रीकल्चर	0.1073	जानकर नाना बरकडे , बाळू नाना बरकडे , रतन बबन बरकडे , छबन बबन बरकडे , आवासो बबन बरकडे , अनिल बबन बरकडे , मालबा नाना बरकडे , म्हाळबा नाना बरकडे , महादेव किसान बरकडे , संजय किसान बरकडे बरकडे . ()
28	133	निजी	एग्रीकल्चर	0.0556	भुजंग बाबूराव बरकडे , चिमाजी धोंडिवा बरकडे , मारुती धोंडिवा बरकडे , बीरा रामा बरकडे , सोमा कोंडी बरकडे , गणपत बाबू बरकडे . ()
29	135	निजी	एग्रीकल्चर	0.0266	रामदास लक्ष्मण बरकडे , गोविंद शिवराम बरकडे , राजाराम शिवराम बरकडे , सुभाष शिवराम बरकडे , बाळू शिवराम बरकडे , वालाबाई शिवराम बरकडे , चंद्रभागा नामदेव महारनवर , आक्का काशीनाथ बरकडे , धनाजी काशीनाथ बरकडे , विजय काशीनाथ बरकडे , हनुमंत काशीनाथ बरकडे ()
30	207	निजी	एग्रीकल्चर	0.0035	संदीप गुलाबराव बरकडे , राजू गुलाबराव बरकडे , नीलेश गुलाबराव बरकडे , मलन गुलाबराव बरकडे , भागुबाई नाना बरकडे , चतुरा गणपत पालवे , चंदाबाई बवासो बरकडे , बापू नाना बरकडे , संजय बाबासो बरकडे , संतोष बाबासो बरकडे , राजश्री रमेश चोरमले , सर्जेराव शिवाजी बरकडे , सारिका अनिल जानकर , कुसुम दिलीप खताळ , कमल सोनबा बरकडे , दीपक तानाजी बरकडे , जालिंदर सोनबा बरकडे , बेबी तात्या दडस , इंदूबाई शिवाजी बरकडे ()
31	209	निजी	एग्रीकल्चर	1.2524	संतोष गुलाब बरकडे , दत्तात्रय गुलाब बरकडे , फूलबाई गुलाब बरकडे , भिका सखाराम बरकडे , रंजना रतन बरकडे , सोनबा रतन बरकडे अपाक आई रंजना , शालन रतन बरकडे अपाक

					<p>आई रंजना , उत्तम बाबूराव बरकडे , रावसाहेब बाबूराव बरकडे , झिंगाबाई खंडु धायगुडे , सुभाष बाबूराव बरकडे , सुलाबाई बापू चोरमले , वनाबाई बाबूराव बरकडे , फूलबाई भाऊ शिंदे , भाऊसाहेब बाबूराव बरकडे , सुनील जयसिंग बरकडे , अनिल जयसिंग बरकडे , मानसिंग जयसिंग बरकडे , तान्हुबाई जयसिंग बरकडे , सिन्दु बंडू बरकडे , प्रमोद बंडू बरकडे , कविता बंडू बरकडे , प्रशांत बंडू बरकडे , बबन गोविंद बरकडे , मीणा शरद जगताप , छाया अर्जुन पेडनेकर , अशोक कृष्णा भोंडवे , विश्वजीत बाबासाहेब फरांदे , वनिता संजय बरकडे , सुभाष बाबू बरकडे , उत्तम बाबू बरकडे , रावसो बाबू बरकडे , भाउसो बाबू बरकडे , रंजना रतन बरकडे , सोनबा रतन बरकडे , शालन रतन बरकडे अपाक रंजना , सुनील जयसिंग बरकडे , अनिल जयसिंग बरकडे , मानसिंग जयसिंग बरकडे , तान्हुबाई जयसिंग बरकडे</p> <p>()</p>
	गांव का नाम: सकुरदे				
32	200	निजी	एग्रीकल्चर	0.3196	<p>अनंत निवृत्ती जगताप , लक्ष्मण निवृत्ती जगताप , सोपान निवृत्ती जगताप , वसंत निवृत्ती जगताप , हेमंत शिवजी डावळकर , विकास शिवजी जगताप , वैभव शिवजी डावळकर , नीलेश रचंद्र जगताप , जयश्री सत्यवान भुमकार , सुरेश महादेव लांधी (२००)</p>
33	201	निजी	एग्रीकल्चर	0.0364	<p>तुकाराम तुळशीराम भोंगळे , वामन मुरारी सस्ते , हरी संतू भोंगळे , महादु नामा भोंगळे , तुळशीराम ढोंडी भोंगळे गंगाराम सुभना भोंगळे , balu पांडुरंग भोंगळे , रामदास पांडुरंग भोंगळे , किसान तुळशीराम भोंगळे , विष्णु तुळशीराम भोंगळे , ज्ञानदेव राजाराम भोंगळे , दिनकर राजाराम भोंगळे , अरविन्द राजाराम भोंगळे , दत्तात्रय राजाराम भोंगळे , वसंत निवृत्ति जगताप , शंकर श्रीपति भोंगळे , बापू विठोबा भोंगळे , सांबा विठोबा भोंगळे चंद्रभागा विठोबा भोंगळे , दगडाबाई छबन झगडे , विमल तुकाराम गायकवाड , मुक्ताबाई</p>

					ज्ञानोबा कुदळे , सावित्रा ज्ञानदेव जगताप , नारायण बाबूराव भोंगळे , govind बाबूराव भोंगळे , गोपाल बाबूराव भोंगळे , भगवाई बाबूराव भोंगळे , अरुणा नानसो जगताप , राहुल हरिभाऊ भोंगळे , रुपाली दिपक बनकर , अल्का हरिभाऊ भोंगळे ()
34	202	निजी	एग्रीकल्चर	0.0057	अशोक गणपत भोंगळे , रमेश गणपत भोंगळे , अक्षय सुभाष भोंगळे अ.पा.क आई लता , रोहिणी रोहिदास राऊत , रत्नप्रभा रामचंद्र रासकर , मीणा रत्नकुमार गरमाळकर, सुशीला दत्तात्रय गार्डे , अनुसया गणपत भोंगळे , शांताबाई शंकर जगताप , मंगल संभाजी पडसे , दत्तात्रय रघुनाथ भोंगळे , सुभद्रा राजाराम झगडे , बेबी नामदेव पडसे , अलका सोपंराओ बोराटे , विमल राघव जगताप , भामाबाई तुकाराम कुदळे , लता सुभाष भोंगळे , कुसुम महस्कू नवले , दशरथ बबन भोंगळे ()
35	203	निजी	एग्रीकल्चर	0.0066	तुकाराम तुळशीराम भोंगळे , अमोल हनुमंत भोंगळे , संभाजी साधु भोंगळे , वैभव अर्जुन जगताप , संभाजी विश्वास जगताप ()
36	221	निजी	एग्रीकल्चर	0.0303	भरत भगवान टिळेकर, मंगेश भगवान टिळेकर , धनेश भगवान टिळेकर, रामचंद्र काशीनाथ भोंगळे , राहुल हरिभाऊ भोंगळे , रुपाली दीपक बनकर , अलका हरिभाऊ भोंगळे , नीता विजय भोंगळे , आनंद विजय भोंगळे , जितेद्र नरहरी कद्रे , शिवकुमार नरहरी कद्रे , अस्मिता किरण वैचे , योगिता निरंजन वैचे ()
37	222	निजी	एग्रीकल्चर	0.015	सरपंच ग्रामपंचायत साकुर्डे करीता दिलीप गुलाब जाधव , प्रकाश पर्वती उर्फ पर्वतराव भोंगळे , जयवंत पर्वती उर्फ पर्वतराव भोंगळे, सयाजी पर्वती उर्फ पर्वतराव भोंगळे , जीजाबाई पर्वती उर्फ पर्वतराव भोंगळे , संभाजी साधु भोंगळे , गोपाळ साधु भोंगळे , शांताराम साधु भोंगळे , अलका सुदाम शेवते , दत्तात्रय तुळशीराम भोंगळे , , तुकाराम तुळशीराम भोंगळे

					()
38	223	निजी	एग्रीकल्चर	0.0294	हतुमंत बाबुराव सस्ते , suresh बाबुराव सस्ते , चंद्रकांत बाबुराव सस्ते , विकास संभाजी सस्ते , विशाल संभाजी सस्ते , विद्या संभाजी सस्ते , नंदा संभाजी सस्ते , सागर रमेश सस्ते , अविनाश रमेश सस्ते , मंगल रमेश सस्ते अपाक आई सुलोचना पांडुरंग सस्ते ()
39	256	निजी	एग्रीकल्चर	0.0366	कोमल श्रीकृष्ण गायकवाड , शेखर श्रीकृष्ण गायकवाड , लता श्रीकृष्ण गायकवाड , संपत पांडुरंग सस्ते , भालचंद्र पांडुरंग सस्ते , मोहन सर्जेराव जाधव , विठ्ठल सर्जेराव जाधव , मारुती गेनबा सस्ते , संभाजी भालचंद्र सस्ते , ज्ञानदेव शंकर जगताप , स्वप्नील अशोक जाधव , कल्याण अशोक जाधव , प्रसाद अशोक जाधव , उदय मधुकर गायकवाड , दत्तात्रय सदाशिव हिंगने , नजीर अमीर मुजावर , संजय एकनाथ दळवी , जितेंद्र ज्ञानेश्वर महाजन , भारत बाळासाहेब चौखंडे , संदीप तुकाराम कोद्रे . ()
40	258	निजी	एग्रीकल्चर	0.1242	कृष्णा बहिरजी रासकर , महादु बाळा रासकर , गोविंद तुकाराम गावडे , सोनूबाई कृष्णा जगताप , सरूबाई दत्तात्रय राऊत , सुभद्रा नारायण वाघोले , माधुरी कैलास लोढे , अनिल दगडू रासकर , उषा दगडू रासकर ()
41	283	निजी	एग्रीकल्चर	0.0216	शिवाजीराव विठ्ठलराव सस्ते , रेखा शिवाजीराव सस्ते , सोनल शिवाजीराव सस्ते , अभिजीत शिवाजीराव सस्ते ()
42	284	निजी	एग्रीकल्चर	0.0143	अभिजीत शिवाजीराव सस्ते , सोनल शिवाजीराव सस्ते , कैलास दशरथ जगताप , शिवाजीराव विठ्ठल सस्ते , शिवाजीराव विठ्ठलराव सस्ते ()
43	285	निजी	एग्रीकल्चर	0.0026	उषा उमेश पवार ()
44	287	निजी	एग्रीकल्चर	0.0262	मंगल तुकाराम जगताप , कलावती महादेव रासकर , पांडुरंग महादेव रासकर , बापू

					महादेव रासकर , राजेंद्र महादेव रासकर , लता हनुमंत पिसे , सुमन मारुती नाळे , रामचंद्र कोंडिबा रासकर , रेखा बाळासो लोनकर , उषारानी रणवीरकुमार भल्हा , शिवाजीराव विठ्ठलराव सस्ते , रेखा शिवाजीराव सस्ते , सोनल शिवाजीराव सस्ते , अभिजीत शिवाजीराव सस्ते ()
45	288	निजी	एग्रीकल्चर	0.0151	शरद वुठ्ठल देशमुख , किसन विठ्ठल देशमुख , भीमराव विठ्ठल देशमुख , शामराव विठ्ठल देशमुख , समिन्द्राबाई विठ्ठल देशमुख , रंजना बाळासो काकडे ()
46	297	निजी	एग्रीकल्चर	0.0022	अजित संपत सस्ते , प्रकाश संपत सस्ते , संभाजी भालचंद्र सस्ते , संतोष संपत सस्ते ()
47	198	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	मारुती दगडू बनकर , राजेंद्र भगवान बनकर , विलास भगवान बनकर , नामदेव दगडू बनकर , राजेंद्र भगवान बनकर , विलास भगवान बनकर ()
48	246	निजी	एग्रीकल्चर	0.1722	सुरेश कृष्णाजी सस्ते , रत्नाकर कृष्णा सस्ते , शुभम रामदास सस्ते ()
			कुल	3.9471	

[फा. सं.NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D10]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 14th November, 2018

S.O.5762(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of **NH965** on the stretch of land from **Km. 176 to Km. 226** (Pimpare (kh)-Dive) section in Pune ,District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;(New collector office , Pune) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in **“Punya Nagari”** and **“Indian Express”** both dated 04/10/2018 And 05/10/2018 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH965 in the stretch of land from Km 176 to Km 226 (Pimpare (kh)-Dive) section NH965 (New collector office , Pune) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Purandhar				
	Viilage: Belsar				
1	1944	Private	Agriculture	0.0025	mohan baburao garud , mahadev baburao garud
2	1949	Private	Agriculture	0.0239	Ahmandbhai Sardarbhai , Sartaj Rafiq Bagavan , Haseena Kalandar Bagavan ,Riyaz Papabhai Bagavan , Sayarabanu Salim Bagavan , Abeda Shafi Bagavan , Mumtaz Hasana bagavan , Elahi Babalal Bagavan , Nizam Babalal Bagavan , Hasana Babalal Bagavan , Majurbhai Abbshabhai Bagavan ,Roshan Mohammed Sharif Bagavan , Akbarbhai Abbshasbai Bagavan , Ramjanbhai Abbshasbai , Mehtab Ganibhai Bagavan , Allahabas Sardarbhai , Ismailbhai Sardarbhai , Ibrahimbhai Sardarbhai , Usmanbhai Sardarbhai ,Kasmabhai Sardarbhai , Macbulbhai Sardarbhai , Yakubbhai Sardarbhai , Mohammedbhai Hattipbhai Sardarbhai
3	1950	Private	Agriculture	0.0174	narayan ramchandra garud , narayan

					ramchandra garud , vishwas ramchandra garud , sudam ramchandra garud , rohidas ramchandra garud , vishwas ramchandra garud , sudam ramchandra garud , rohidas ramchandra garud
4	1951	Private	Agriculture	0.0186	bharat dagdu khengare , sarubai dagdu khengare
5	1952	Private	Agriculture	0.0259	ajit hanumant khengare , abhijeet hanumant khengare apak aai shaila , ashwini hanumant khengare apak aai shaila , kamal vitthal khengare , krishna vyankat khengare , gajrabai shankar badadhe , girajabai tanaji shendkar , govind sitaram khengare , janabai babasaheb shevale , dnyanoba ramchandra khengare , dattatray jaysing khengare , dilip ramchandra uraf rama jagtap , namdev jaysing khengare , parubai ramdas jadhav , pandurang vyankat khengare , fulabai mugut khengare , babasaheb tukaram khengare , bharat dagadu khengare , madhukar gulab khengare , mahadev malhari khengare , mahadev sitaram khengare , mansing jaysing khengare , mohan sitaram khengare , raghunath jaysing khengare , ramesh tukaram khengare , rahibai ramchandra uraf rama jagtap , lakshman sitaram khengare , vattsala krishna borade , vaijyanta dilip pilane , shivaji tukaram khengare , shivaji ramchandra uraf rama jagtap , shaila hanumant khengare , shankar tukaram khengare , shankar mugut khengare , sayaji sitaram khengare , sarubai dagadu khengare , savita sanpat poman , sujankumar jaysing khengare , sunita sopan khengare , sonubai dagadu khengare , soham sopan khengare apak aai sunita , harubai baban navle , baburao shripati khengare
6	1972	Private	Agriculture	0.012	chandrakant sitaram rananavre
7	1973	Private	Agriculture	0.0047	parshuram bhikoba magar , sadhna sanjay thonbare , arpna prakash harpale , pallavi rahul takke , shilpa sachin bhintaade , punam yogesh kalbhor
8	1976	Private	Agriculture	0.0175	Vimal Shivaram Banakar , Ganesh Shivaram Banakar Apak aai Vimal , Girish Shivaram Bankar Apak Aai Vimal , Praveen Dhondiba Banakar , Prashant Balasaheb Banakar , Pandurang Antu Banakar , Sima Ramdas Raikar
9	1974	Private	Agriculture	0.0261	Chandrakant Raghunath Bankar, Amol Ashok Bankar, Nilesh Ashok Bankar, Prakash Bhagwant Bankar, Mangal Namdeo Ladkat, Manjulabai Bhagwant Bankar, Manisha Jairaj Sasane, Vijaya Namdeo Tilekar, Sarswati Ashok Bankar, Shankar Rambhau Bankar, Dnyaneshwar

					Dharma Borse
10	1975	Private	Agriculture	0.0161	Taravati Pandurang Raut, Pandurang Antu Bankar, Pravin Dhondiba Bankar, Prashant Balasaheb Bankar, Rohit Shankar Raikar, Seema Ramdas Raikar
	Village: Jeur				
11	228	Private	Agriculture	0.0435	Appa Annata Dhayagude , Bapurao Namdev Dhayagude, Bidabai Nagesh Thombre, Akshay Dada Dhayagude , Aakaash Dada Dhayagude a.pa. k. Ranibai , Ranibai Dada Dhayagude
12	230	Private	Agriculture	0.056	Mangal Appaso dhaygude , dattatray krishna tanmbe , dnyaneshwar krishna tanbe , lakshman sanbhaji tanmbe , bhikabai krishna tanmbe , vilas sadhu tanmbe , ranibai dada dhaygude , baydabai nagesh thombare , akash dada dhaygude apak aai ranibai , akshay dada dhaygude , bapurao namdev dhaygude
13	220	Private	Agriculture	0.76	Lakshmi madhukar shinde , usha gajanan shinde , vidya somnath shinde , nirabai kesu tambe , rohidas pandurang sarak , radhabai dattatray tambe , tarabai pandurang sarak , purushottam anant deshpande , anjana abaji choramle , genba shankar sarak , jayprakash shankar sarak , sindhu aanna dhaygude , hirabai gopal pandhare , balutai tukaram tambe , narayan kondiba tanmbe , aanna kondiba tanmbe , shamrao kondiba tambe , sanjay kondiba tambe , bhalchandra chintaman deshpande , nalini chintaman deshpande , bhanudas vaman sarak , lakshman aanna tambe , kumar sanpat dhaygude
14	232	Private	Agriculture	0.03	mahadev shankar tambe , dattatray krishna tambe , dnyaneshwar krishna tambe , bhikabai krishna tambe , mohan pandurang tambe , dnyaneeshwar pandurang tambe , sunil pandurang tambe , malan dilip shelake , mangal namdev dhaygude , indubai pandurang tambe , kamla pandurang tambe , appa chintaman tambe , sanjay chintaman tambe , sadashiv chintaman tambe , yashodabai chintaman tambe
	Village: Kolvihere				
15	156	Private	Agriculture	0.0157	Lakshman narayan varagade
16	2124	Private	Agriculture	0.37	Arun maruti Bhor , dattatray nivrutti bhor , dhondiba shankar bhor , rohit ramesh bhor , sunanda ramesh bhor , sonali rahul gaikwad , monali ramesh bhor , vasant babu bhor , vaman ravaji bhor , sanjay nivrutti bhor , hanumant nivrutti bhor , sahebrao krushna bhor , bhagavan krushna bhor , dashrath tatyaba bhor , rajaram jagannath bhor , arjun tatyaba bhor

	Village: Pimpri Kh.				
17	291	Private	Agriculture	0.0295	Namdev Mugutrav Thopate, Mohan Namdev Thopate ,Vijay Namdev Thopate, Kakaso Namdev Thopate ,Prabhavati Hanumant Shirke , Shobha Prakash Kadam ,Endubai NamdevThopate
	Village: Pisurti				
18	66	Private	Agriculture	0.0079	surekha eknath harpale
19	94	Private	Agriculture	0.0118	Hirabai Baban jagatap , Vitthal Laksman Bhujbal , Vishal Baban Bhujbal , Suvarna Rajendra Khatamalasa , Sunita Nandakumar Raskar , Aruna Shankar Jagatap , Vaishali Anil Jagatap , Asha Sagar SaSane , Suman Baban Bhujbal
20	107	Private	Agriculture	0.0042	bapurao krishnaji bhosle , prabhakar krishnaji bhosle , bhaurao krishnaji bhosle , shantabai bhikaji ravkhande , chanpabai dashrath kanbale , sushil valmik sonanis
21	112	Private	Agriculture	0.0232	pandurang vithoba bhosale , haribhau vithoba bhosale , devdas dhondiram bhosale
22	126	Private	Agriculture	0.0002	Rangubai Raghunath Hagvane Akum , Gangubai Savala Khair , Bakulabai Dinakar Doiphode , Dmodar Ramchandra Bhosale , Shamrao Ramchandra Bhosale , Dyandeo Ramchandra Bhosale , Genaba Ramchandra Bhosale , Tukaram Ramchandra Bhosale , Pundalik Ramchandra Bhosale , Nivarutti Ramchandra Bhosale , Navanath Ramchandra Bhosale , Shantabai Uttam Doiphode , Sindu Namdev Bhosale , Madhukar Namdev Bhosale , Vijay Namdev Bhosale , Suvarna Urf Manda Lakshuman Jadhav , Sunita Mahadev Aabanave , Manisha Sandip Dhavale
23	127	Private	Agriculture	0.0387	Manik Malhari Barkade , Mansing Jaysing Barkade , Anil Jaysing Barkade , Sunil Jaysing Barkade , Tahnubai Jaysing Barkade ,Ravsaheb Baburav barkade , Ranjana Ratan Barkade , Vnabai Baburav Barkade , Shalan Ratan Barkade Apak Aai Ranjana , Subhash Baburav Barkade , Sonaba Ratan Barkade Apak Aai Ranjana ,Uttam Baburav Barkade , Jhingabai Khandu Dhaygude , Phulabai Bhau Shinde , Bhausahab Baburav Barkade , Sulabai Bapu Chormale
24	128	Private	Agriculture	0.0197	Sampat Rama Barkade.
25	129	Private	Agriculture	0.0313	Dada Aappa Barkade , Dattatray Maruti Barkade , Barkabai Maruti Barkade , Vittal Maruti Barkade , Dilip Maruti Barkade , Sushila Sadashiv Dhaygude , Radhabai Balu Dhaygude , Shantabai

					Shankar Chormale , Palabai Aappa Thombare
26	131	Private	Agriculture	0.0273	Ransing Raghunath Pawar .
27	132	Private	Agriculture	0.1073	Jankar Nana Barkade , Balu Nana Barkade , Ratan Baban Barkade , Chhaban Baban Barkade , Aabaso Baban Barkade , Anil Baban Barkade , Malaba Nana Barkade , Mhalaba Nana Barkade , Mahadev Kisan Barkade , Sanjay Kisan Barkade .
28	133	Private	Agriculture	0.0556	Bhujang Baburao Barkade , Chimaji Dhondiba Barkade , Maruti Dhondiba Barkade , Bira Rama Barkade , Soma Kondi Barkade , Ganpat Babu Barkade .
29	135	Private	Agriculture	0.0266	Ramdas Lakshman Barakade , Govind Sivaram Barakade , Rajaram Sivaram Barakade , Subhash Sivaram Barakade , Balu Sivaram Barakade , Walabai Sivaram Barakade , Chandrabhaga Namdev Maharwanwar , Akka Kashinath Barakade , Dhanaji Kashinath Barakade , Vijay Kashinath Barakade , hanumanth Kashinath Barakade
30	207	Private	Agriculture	0.0035	sandip gulabrao barkade raju gulabrao barkade , Nilesh gulabrao barkade , malan gulabrao barkade , bhagubai nana barkade , chatura ganpat palve , chandabai babaso barkade , bapu nana barkade , sanjay babaso barkade , santosh babaso barkade , rajeshri ramesh choramle , sarjerao shivaji barkade , sarika anil jankar , kusum dilip khatal , kamal sonba barkade , dipak tanaji barkade , jalindar sonba barkade , baby tatya das , endubai shivaji barkade
31	209	Private	Agriculture	1.2524	Santosh gulab barkade , dattatray gulab barkade , fulabai gulab barkade , bhika sakham barkade , ranjana ratan barkade , sonaba ratan barkade apak aai ranjana , shalan ratan barkade apak aai ranjana , uttam baburao barkade , ravsaheb baburao barkade , zingabai khandu dhaygude , subhash baburao barkade , sulabai bapu choramle , vanabai baburao barkade , fulabai bhau shinde , bhausaheb baburao barkade , sunil jaysing barkade , anil jaysing barkade , mansing jaysing barkade , tanhubai jaysing barkade , sindu bandu barkade , pramod bandu barkade , kavita bandu barkade prashant bandu barkade , baban govind barkade , mina sharad jagtap , chaya arjun pednekar , ashok krushna bhondave , vishwajit babasaheb farande , vanita sanjay barkade , subhash babu barkade , uttam babu barkade , ravso babu barkade , bhauso babu barkade , ranjana ratan barkade , sonaba ratan barkade , shalan ratan

					barkade apak ranjana , sunil jaysing barkade , anil jaysing barkade , mansing jaysing barkade , tanhubai jaysing barkade
	Village: Sakurde				
32	200	Private	Agriculture	0.3196	anant nivrutti jagtap , lakshman nivrutti jagtap , sopan nivrutti jagtap , vasant nivrutti jagtap , hemant shivaji davalkar , vikas shivaji davalkar , vaibhav shivaji davalkar , Nilesh rachandra jagtap , jayshri satyavan bhumkar , suresh mahadev langhi 200
33	201	Private	Agriculture	0.0364	tukaram tulshiram bhongale , vaman murari saste , hari santu bhongale , mahadu nama bhongale , tulshiram dhondi bhongale gangaram subhana bhongale , balu pandurang bhongale , ramdas pandurang bhongale , kisan tulshiram bhongale , vishnu tulshiram bhongale , dnyandev rajaram bhongale , dinkar rajaram bhongale , arvind rajaram bhongale , dattatray rajaram bhongale , vasant nivrutti jagtap , shankar shreepati bhongale , bapu vithoba bhongale , sonba vithoba bhongale chandrabhaga vithoba bhongale , dagadabai chaban zagade , vimal tukaram gaikwad , muktabai dnyanoba kudle , savitra dnyandev jagtap , narayan baburao bhongale , govind baburao bhongale , gopal baburao bhongale , bhagubai baburao bhongale , aruna nanaso jagtap , rahul haribhau bhongale , rupali dipak bankar , alka haribhau bhongale
34	202	Private	Agriculture	0.0057	ashok ganpat bhongale , ramesh ganpat bhongale , akshay subhash bhongale apak aai lta , rohini rohidas raut , ratnprabha ramchandra raskar , mina ratnakumar garmalkar , sushila dattatrya garde , anusaya ganpat bhongale , shantabai shankar jagtap , mangal sanbhaji pise , dattatray raghunath bhongale , subhadra rajaram zagde , baby namdev pise , alka sopanrao borate , vimal raghav jagtap , bhamabai tukaram kudale , lata subhash bhongale , kusum mhasaku navle , dashrath baban bhongale
35	203	Private	Agriculture	0.0066	tukaram tulshiram bhongale , amol hanumant bhongale , sanbhaji sadhu bhongale , vaibhav arjun jagtap , sanbhaji vishwas jagtap
36	221	Private	Agriculture	0.0303	bharat bhagvan tilekar , mangesh bhagvan tilekar , dhanesh bhagvan tilekar , ramchandra kashinath bhongale , rahul haribhau bhongale , rupali dipak bankar , alaka haribhau bhongale , nita vijay bhongale , anand vijay bhongale , jitedra

					narhari kadre , shivkumar narhari kadre , asmita kiran baiche , yogita niranjan baiche
37	222	Private	Agriculture	0.015	sarpanch grampanchayat sakurde karita dilip gulab jadhav , prakash parvati urf parvatrao bhongale , jayvant parvati urf parvatrao bhongale , sayaji parvati urf parvatrao bhongale , jijabai parvati urf parvatrao bhongale , sanbhaji sadhu bhongale , gopal sadhu bhongale , shantaram sadhu bhongale , alaka sudam shevate , dattatray tulshiram bhongale , tukaram tulshiram bhongale
38	223	Private	Agriculture	0.0294	hanumant baburao saste , suresh baburao saste , chandrakant baburao saste , vikas sanbhaji saste , vishal sanbhaji saste , vidya sanbhaji saste , nanda sanbhaji saste , sagar ramesh saste , avinash ramesh saste , mangal ramesh saste apak aai sulochna pandurang saste
39	256	Private	Agriculture	0.0366	Komal Shrikrushna Gaikwad , Shekhar Shrikrushna Gaikwad , Lata Shrikrushna Gaikwad , Sampat Pandurang Saste , Bhalchandra Pandurang Saste , Mohan Sarjerao Jadhav , Vittal Sarjerao Jadhav , Maruti Genba Saste , Sambhaji Bhalchandra Saste , Dnyandev Sankar Jagatap , Swapanil Ashok Jadhav , Kalyan Ashok Jadhav , Prasad Ashok Jadhav , Uday Madhukar Gaikwad , Dattatray Sadashiv Hingane , Najir Amir Mujavar , Sanjay Eaknath Dalavi , Jitendra Dnyaneshwar Mahajan , Bharat Balasaheb Choukhande , Sandip Tukaram Kodre .
40	258	Private	Agriculture	0.1242	Krishna Bahirji Raskar , Mahadu Bala Raskar , Govind Tukaram Gawde , Sonubai Krishna Jagtap , Sarubai Dattatray Raut , Subhadra Narayan Waghole , Madhuri Kailas Londhe , Anil Dagdu Raskar , Usha Dagdu Raskar
41	283	Private	Agriculture	0.0216	shivajirao vitthalrao saste , rekha shivajirao saste , sonal shivajirao saste , abhijeet shivajirao saste
42	284	Private	Agriculture	0.0143	abhijit shivajirao saste , sonal shivajirao saste , kailas dashrath jagtap , shivajirao vitthal saste , shivajirao vitthalrao saste
43	285	Private	Agriculture	0.0026	usha umesh pawar
44	287	Private	Agriculture	0.0262	mangal tukaram jagtap , kalavati mahadev raskr , pandurang mahadev raskr , bapu mahadev raskar , rajendra mahadev raskar , lata hanumant pise , suman maruti nale , ramchandra kondiba raskar , rekha balaso lonkar , usharani ranbirkumar bhalha , shivajirao vitthalrao saste , rekha shivajirao saste , sonal shivajirao saste , abhijeet shivajirao saste

45	288	Private	Agriculture	0.0151	sharad vutthal deshमुख , kisan vitthal deshमुख , bhimrao vitthal deshमुख , shamrao vitthal deshमुख , samindrabai vitthal deshमुख , ranjna balaso kakde
46	297	Private	Agriculture	0.0022	Ajit Sampat Saste , Prakash Sampat Saste , Sambhaji Bhalchandra Saste , Santosh Sampat Saste .
47	198	Private	Agriculture	0.01	maruti dagadu bankar , rajendra bhagvan bankar , vilas bhagvan bankar , namdev dagadu bankar , rajendra bhagvan bankar , vilas bhagvan bankar
48	246	Private	Agriculture	0.1722	suresh krushnaji saste , ratnakar krushna saste , shubham ramdas saste
			TOTAL	3.9471	

[F. No. NHA/PIU/SLP/LA/17/3D10]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.